




यह क्या है?
निर्णय बैठकें



बैठकें हममें से प्रत्येक के दैनिक कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।



यह वह क्षण है जहां निर्णय लिए जाते हैं और आगे बढ़ने के निर्देश दिए जाते हैं।



उन्हें सर्वोत्तम तरीके से कार्य करने के लिए, हमने उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है: पहले, दौरान, बाद में।

CONNECT

Project Increase traffic on the website by 5%

Objective A Yes/No decision on the development of the "Help us innovate" section

Moderator A. Miller

Participants L. Smith, J. Brown, C. Bell

Date/time Monday, March 20, 2024, h. 2.00pm

Location Meeting room 3 (2nd floor)

Duration 60 minutes max

Objective:
Development "Help us to innovate"
Monday, March 20, 2024, h. 2.00pm
Meeting room 3 (2nd floor)

Structure and Timing

- Needs analysis
- Idea analysis
- Decision


जोड़ना,

CONNECT

Project	Increase traffic on the website by 5%	Moderator	L. Smith, J. Brown, C. Bell
Objective	A Yes/No decision on the development of the "Help us innovate" section	Participants	L. Smith, J. Brown, C. Bell
		Date/time	Monday, March 20, 2024, h. 2.00pm
		Location	Meeting room 3 (2nd floor)
		Duration	60 minutes max

STRUCTURE & TIMING	LEAD	TIME
Introduction		5 min
Current situation analysis	J. Brown	5 min
Proposal		
Introduction to the proposed technology	C. Bell	15 min
Reference market		
Costs		
Pros and cons discussion session		
YES/NO decision on the proposal	Everyone	20 min
Any Action planner, timing, people involved and tasks	Everyone	10 min
Closing of meeting		5 min

यह स्पष्ट होना कि यह किस बारे में है।




अभिनय करना,




बैठक के दौरान सही व्यवहार रखें,




व्यक्तिगत रूप से और दूर से दोनों।



यह जानना कि कब अंतर करना है, कब सुनना है, कब हस्तक्षेप करना है...



...और परिणाम प्राप्त करने में कब सक्रिय रूप से भाग लेना है।



बैठक के बाद, यह स्पष्ट कर लें कि निर्धारित समय के भीतर क्या करना है और कैसे कार्य करना है।



बैठकें वास्तव में हमारे दैनिक कार्य की प्रेरक शक्ति हैं।



All that is reported in this project, videos, documentation, contents, texts, images, artistic work and graphics, are the property of the author, are protected by copyright, as well as by intellectual property rights. It is therefore absolutely forbidden to copy, appropriate, redistribute, reproduce any part, content or image present, because they are the result of the work and the intellect of the author himself. It is forbidden to copy and reproduce the contents in any form. The redistribution and publication of content is prohibited, not expressly authorized by the author.